



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 19 दिसम्बर, 2019 / 28 मार्गशीर्ष, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-156/2019.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से

संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल/ उप-मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	48/2014	मेवग-प्रथम	मेवग	21	06-50-71	उत्तर : टिपरा दक्षिण : मेवग पूर्व : टिपरा पश्चिम : मेवग	मशोबरा	शिमला	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-156/2019, dated 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-156/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	48/2014	Mewag-I	Mewag	21	06-50-71	North : Tipra South : Mewag, East : Tipra, West : Mewag	Mashobra	Shimla	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-157/2019.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल/उप-मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल/उप-मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	49/2014	मल्याणा-द्वितीय	मल्याणा	611/1, 663/1	10-41-81	उत्तर : शनान-प्रथम दक्षिण : मल्याणा प्रथम पूर्व : मल्याणा प्रथम पश्चिम : मल्याणा प्रथम, मल्याणा द्वितीय	मशोबरा	शिमला	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-157/2019, dated 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-157/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	49/2014	Malyana-II	Malyana	611/1, 663/1 Kitta . . 2	10-41-81	North : Shanan-I South : Malyana-I, East : Malyana-I, West : Malyana-I, Malyana-II	Mashobra	Shimla	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-158/2019.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जाँच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल/उप-मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल/उप-मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	50/2014	शुराला-द्वितीय	शुराला	503, 505, 682/1 किता. . 3	48-66-10	उत्तर : चमयाणा दक्षिण : शुराला पूर्व : शुराला, मेवग पश्चिम : शुराला	मशोबरा	शिमला	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F (14)-158/2019, dated 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-158/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	50/2014	Shurala-II	Shurala	503, 505, 682/1 Kitta. . 3	48-66-10	North : Chamyana South : Shurala East : Shurala, Mewag West : Shurala	Mashobra	Shimla	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-159/2019.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल / उप-मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हेक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल / उप- मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	51 / 2014	बड़फर	बड़फर	63, 83 / 1, 86 / 1 किता. . 3	13-06-90	उत्तर : बड़फर दक्षिण : बड़फर पूर्व : सरुईला बरुईला पश्चिम : बड़फर	मशोबरा	शिमला	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-159/2019, dated 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-159/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal/ Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	51/2014	Badafer	Badafer	63, 83/1, 86/1 Kitta. . 3	13-06-90	North : Badafer South : Badafer East : Saruila Baruila West : Badafer	Mashobra	Shimla	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-160/2019.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल/उप-मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल/उप-मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	52/2014	अणु	अणु	259, 273, 372, 373 किता. . 4	9-66-42	उत्तर : अणु दक्षिण : अणु, डी0पी0एफ0 अणु कुफर पूर्व : अणु पश्चिम : अणु	मशोबरा	शिमला	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-160/2019, dated 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-160/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal/ Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	52/2014	Anu	Anu	259, 273, 372, 373 Kitta . . 4	9-66-42	North : Anu South : Anu, DPF Anu Kufer East : Anu West : Anu	Mashobra	Shimla	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-161/2019.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल/उप-मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल/उप-मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	53/2014	भड़श-प्रथम	भड़श	238, 240, 241, 243, 244, 478 किता. . 6	9-43-15	उत्तर : भड़श दक्षिण : कैथू-द्वितीय पूर्व : भड़श पश्चिम : गोलछा	मशोबरा	शिमला	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-161/2019, dated 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-161/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal/ Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	53/2014	Bharash-I	Bharash	238, 240, 241, 243, 244, 478 Kitta. . 6	09-43-15	North : Bharash South : Kaithu-II East : Bharash West : Golchha	Mashobra	Shimla	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-162 / 2019.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल/ उप-महाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल/उप-मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	54/2014	ढमेची-द्वितीय	ढमेची	4, 36, 506, 509, 510, 564, 665 किता. . 7	10-21-12	उत्तर : क्वारा, ढमेची दक्षिण : पुजारली पूर्व : ढमेची पश्चिम : चड़ोली	मशोबरा	शिमला	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-162/2019, dated 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-162/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	54/2014	Dhamechi-II	Dhamechi	4, 36, 506, 509, 510, 564, 665 Kitta. . 7	10-21-12	North : Kawara, Dhamechi South : Pujarli East : Dhamechi West : Charoli	Mashobra	Shimla	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-163/2019.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल / उप-मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल / उप-मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	55 / 2014	सरघीन-द्वितीय,	सरघीन	753, 851, 868,, 875, 890 किता. . 5	6-00-22	उत्तर : सरघीन दक्षिण : क्वारा पूर्व : सरघीन पश्चिम : पटयोग	मशोबरा	शिमला	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F (14)-163/2019, dated 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-163/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	55/2014	Sarghin-II	Sarghin	753, 851, 868, 875, 890 Kitta . . 5	6-00-22	North : Sarghin South : Kawara East : Sarghin West : Patyog	Mashobra	Shimla	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-164/2019.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल/उप-मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हेक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल/उप-मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	56/2014	मैहली	मैहली	599, 600, 1065, 1068/1, 1114, 1127, 1139/1 किता. . 7	54-75-37	उत्तर : मैहली दक्षिण : गुसान पूर्व : शकराला व मैहली पश्चिम : चैली	मशोबरा	शिमला	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-164/2019, dated 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-164/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal/ Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	56/2014	Mehali	Mehali	599, 600. 1065, 1068/1, 1114, 1127, 1139/1 Kitta. . 7	54-75-37	North : Mehali South : Gusan East : Shakrala, Mehali West : Chaili	Mashobra	Shimla	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-165/2019.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल / उप-मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल / उप-मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	57 / 2014	क्वारा-द्वितीय	क्वारा	1286, 1307, 1320 किता . . 3	06-79-06	उत्तर : दोची, सरधीन दक्षिण : क्वारा पूर्व : क्वारा पश्चिम : क्वारा	मशोबरा	शिमला	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-165/2019, dated 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-165/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	57/2014	Kawara-II	Kawara	1286, 1307, 1320 Kitta. . 3	6-79-06	North : Dochi, Sarghin South : Kawara East : Kawara West : Kawara	Mashobra	Shimla	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forests).

In the Court of Anurag Chander Sharma, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

1. Jog Ram Sharma s/o Sh. Bagu Ram Sharma, r/o Village and Post Office Kalol, Tehsil Jhanduta, Distt. Bilaspur, H.P.

2. Kaushalya wd/o Late Sh. Sher Singh, r/o House No. 134, Ward No. 9, Village Shangribag, P.O. Neoli, Tehsil & Distt. Kullu, H.P
.. Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Jog Ram Sharma and Kaushalya have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 27-11-2019 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act, *ibid*.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-01-2020. The objection received after 05-01-2020 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 05-12-2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu (H.P.).*

In the Court of Shri Raman Gharsangi (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.

In the matter of :

Satyabir Singh aged 25 years s/o Sh. Rajesh Kumar, r/o Abdipur Harbans, Harganpur Bijnor, U.P. A/P residing at V.P.O. Old Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H. P. and Smt. Rubi Rani aged 20 years d/o Sh. Nainu, r/o Village Chandok, P.O. Chandak, Mandawar Bijnor, U.P. A/P V.P.O. Old Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H. P.

Versus

General Public

Subject.—An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Satyabir Singh aged 25 years s/o Sh. Rajesh Kumar, r/o Abdipur Harbans, Harganpur Bijnor, U.P. A/P residing at V.P.O. Old Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H. P. and Smt. Rubi Rani aged 20 years d/o Sh. Nainu, r/o Village Chandok, P.O. Chandak, Mandawar Bijnor, U.P. A/P V.P.O. Old Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H. P. has presented an application on 09-12-2019 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 08-01-2020 at Manali to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 10th day of December, 2019.

Seal.

Sd/-
*Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, H.P.*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :

1. Shri Pankaj Kumar s/o Shri Ghanshyam, r/o V. P. O. Kummi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.
2. Smt. Neha d/o Shri Lal Singh, r/o V. P. O. Kummi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. at present wife of Shri Pankaj Kumar s/o Shri Ghanshyam, r/o V. P. O. Kummi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Pankaj Kumar s/o Shri Ghanshyam, r/o V. P. O. Kummi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Neha d/o Shri Lal Singh, r/o V. P. O. Kummi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. at present wife of Shri Pankaj Kumar s/o Shri Ghanshyam, r/o V. P. O. Kummi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 09-09-2019 according to Hindu rites and customs at Hateshwari Mata Temple Hatgarh, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-12-2019. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 3rd December, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :

1. Shri Varun Soni s/o Shri Vijay Kumar, r/o Village & P. O. Nerchowk, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

2. Smt. Shivangini Bhardwaj d/o Shri Khem Raj Bhardwaj, r/o Bhojpur Bazar Sundernagar, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P. at present wife of Shri Varun Soni s/o Shri Vijay Kumar, r/o Village & P. O. Nerchowk, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Varun Soni s/o Shri Vijay Kumar, r/o Village & P. O. Nerchowk, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Shivangini Bhardwaj d/o Shri Khem Raj Bhardwaj, r/o Bhojpur Bazar Sundernagar, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P. at present wife of Shri Varun Soni s/o Shri Vijay Kumar, r/o Village & P. O. Nerchowk, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 22-07-2018 according to Hindu rites and customs at Village & P. O. Nerchowk, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 31-12-2019. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 11th December, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :

1. Shri Mohammad Banu s/o Shri Mohammad Ali, r/o Village Firnu, Tehsil Karsog at present r/o Village Dadour, P.O. Dhaban, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

2. Smt. Zareena d/o Shri Shafi Mohammad, r/o H. No. 4 near Water Tank Town Changer, Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P. at present wife of Shri Mohammad Banu s/o Shri Mohammad Ali, r/o Village Firnu, Tehsil Karsog at present r/o Village Dadour, P.O. Dhaban, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Mohammad Banu s/o Shri Mohammad Ali, r/o Village Firnu, Tehsil Karsog at present r/o Village Dadour, P.O. Dhaban, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Zareena d/o Shri Shafi Mohammad, r/o H. No. 4 near Water Tank Town Changer, Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P. at present wife of Shri Mohammad Banu s/o Shri Mohammad Ali, r/o Village Firnu, Tehsil Karsog at present r/o Village Dadour, P.O. Dhaban, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 20-07-2017 according to Muslim rites and customs at Village Dadour, P.O. Dhaban, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-01-2020. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 11th December, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :

1. Shri Neeraj Kumar s/o Shri Karam Chand, r/o Village Nalwari, P. O. Galma, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

2. Smt. Tanu Thakur d/o Shri Raj Kumar, r/o Village Jhalwan, P.O. Majharnu, Tehsil Jogindernagar, District Mandi, H. P. at present wife of Shri Neeraj Kumar s/o Shri Karam Chand, r/o Village Nalwari, P. O. Galma, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Neeraj Kumar s/o Shri Karam Chand, r/o Village Nalwari, P. O. Galma, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Tanu Thakur d/o Shri Raj Kumar, r/o Village Jhalwan, P.O. Majharnu, Tehsil Jogindernagar, District Mandi, H. P. at present wife of Shri Neeraj Kumar s/o

Shri Karam Chand, r/o Village Nalwari, P. O. Galma, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 23-11-2019 according to Hindu rites and customs at Dev Bala Tikka Temple Baniuri, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 03-01-2020. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 4th December, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :

1. Sh. Ashutosh Kumar s/o Sh. Harvansh Kumar, r/o Near B.S.A. Office Mohalla Dank, Bangla Colony Amroha, Utter Pradesh.
2. Deepika d/o Sh. Parduman, Village Ghera, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Ashutosh Kumar s/o Sh. Harvansh Kumar, r/o Near B.S.A. Office Mohalla Dank Bangla Colony Amroha, Utter Pradesh and Deepika d/o Sh. Parduman, Village Ghera, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-04-2012 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 02-01-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 03rd day of December, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

ब अदालत पूर्ण चन्द कौंडल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील मकरीड़ी,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 5 / 2019

दिनांक मरजुआ: 16-11-2019

उनवान मुकद्दमा :

श्री पूर्ण चन्द पुत्र स्व0 श्री परस राम पुत्र श्री लुहारू, निवासी गांव महाल छातरी/262, डाकघर मकरीड़ी, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना-पत्र U/S 37 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953 नाम दुरुस्त करने बारे महाल छातरी/262.

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री पूर्ण चन्द पुत्र स्व0 श्री परस राम पुत्र श्री लुहारू, निवासी गांव महाल छातरी/262, डाकघर मकरीड़ी, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में दिनांक 16-11-2019 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी उपरोक्त पता का स्थाई निवासी है। प्रार्थी के पिता का नाम श्री परस राम है जोकि भारतीय सेना के रिकार्ड और आधार कार्ड में भी परस राम दर्ज है। यह कि प्रार्थी का पिता परस राम महाल छातरी/262 उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) का मालिक दर्ज चला आ रहा था परन्तु सितम्बर 2019 में उनकी मृत्यु हो गई। यह कि प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व महाल छातरी/262 में पलस राम दर्ज राजस्व अभिलेख में चला आ रहा है जोकि गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम ग्राम पंचायत, आधार कार्ड व भारतीय सेना से प्राप्त प्रमाण-पत्र में परस राम दर्ज है जो कि सही दर्ज है, इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम पलस राम के स्थान पर परस राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री पूर्ण चन्द के स्वर्गीय पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल छातरी/262 में पलस राम के स्थान पर परस राम दर्ज करने में कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में दिनांक 06-01-2020 को प्रातः 10.00 बजे अपने उजर या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 03-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री नन्द लाल कँथला, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, शिलाई,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)**

श्री मोहर सिंह पुत्र कातकू गांव मोहराड, डाकघर बालीकोटी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर
(हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

मौजा चामड़ा मोहराड के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री मोहर सिंह पुत्र कातकू गांव मोहराड, डाकघर बालीकोटी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर
(हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम मोहर सिंह पुत्र कातकू है।
मुताबिक पंचायत रिकॉर्ड व आधार कार्ड में भी उसका नाम मोहर सिंह पुत्र कातकू सही है परन्तु मौजा चामड़ा
मोहराड के राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम भगत सिंह दर्ज किया गया है, जो कि गलत है। इसे दुरुस्त किया
जाना उचित है।

अतः आम जनता को बजरिये इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी को कोई
उजर या एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 06-01-2020 को या इससे पूर्व असालतन
या वकालतन अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर एतराज प्राप्त न होने की सूरत में
नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-12-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री नन्द लाल कँथला, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, शिलाई,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)**

श्री रण सिंह पुत्र श्री भूप सिंह, गांव दिगवा, डाकघर मिल्ला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर
(हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री रण सिंह पुत्र श्री भूप सिंह, गांव दिगवा, डाकघर मिल्ला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर
(हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम रण सिंह पुत्र श्री भूप सिंह है।
मुताबिक पंचायत रिकॉर्ड व आधार कार्ड में भी उसका नाम रण सिंह पुत्र श्री भूप सिंह सही है परन्तु राजस्व
रिकॉर्ड में उसका नाम राणीया दर्ज किया गया है, जो कि गलत है। इसे दुरुस्त किया जाना उचित है।

अतः आम जनता को बजरिये इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 06-01-2020 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-11-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री नन्द लाल कैथला, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, शिलाई,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री रतन सिंह पुत्र मेहर सिंह, गांव डिम्टी, डाकघर बेला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर
(हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री रतन सिंह पुत्र मेहर सिंह, गांव डिम्टी, डाकघर बेला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम रतन सिंह पुत्र मेहर सिंह है। मुताबिक पंचायत रिकॉर्ड व आधार कार्ड में भी उसका नाम रतन सिंह पुत्र मेहर सिंह सही है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम रती राम पुत्र मेहर सिंह दर्ज किया गया है, जो कि गलत है। इसे दुरुस्त किया जाना उचित है।

अतः आम जनता को बजरिये इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 06-01-2020 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-11-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर
(हि0प्र0)**

श्रीमती नीमा देवी पुत्री श्री हरी राम, निवासी ग्राम भूपपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती नीमा देवी पुत्री श्री हरी राम, निवासी ग्राम भूपपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का प्रार्थना-पत्र जिसके अन्तर्गत प्रार्थिया ने अपने चाचा सोभा राम पुत्र मेहरू जिनकी मृत्यु दिनांक 25-02-1982 को हुई है का इन्द्राज अज्ञानतावश ग्राम पंचायत टटियाणा के अभिलेख में दर्ज करवाने से छूट गया था, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। जिस बारे मूल प्रकरण जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर के कार्यालय पत्र क्रमांक एच0एफ0डब्ल्यू/एस0टी0/बी0 एण्ड डी0/डिलेड कैसिस/2018-1671 दिनांक 15-07-2019 के अन्तर्गत संस्तुति सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे अगर किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-01-2020 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 06-01-2020 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्रीमती नीमा देवी पुत्री श्री हरी राम, निवासी ग्राम भूपपुर, तहसील पांवटा साहिब पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

**ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर
(हि0प्र0)**

श्री धुडू राम पुत्र श्री नन्दू, निवासी ग्राम लवागो (कोडगा), तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री धुडू राम पुत्र श्री नन्दू, निवासी ग्राम लवागो (कोडगा), तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का प्रार्थना-पत्र जिसके अन्तर्गत प्रार्थी अपने पुत्र विशाल जिसकी जन्म तिथि 10-04-2011 है का इन्द्राज अज्ञानतावश ग्राम पंचायत सखोली के जन्म अभिलेख में दर्ज करवाने से छूट गया था, जिसे प्रार्थी अब दर्ज

करवाना चाहता है। जिस बारे मूल प्रकरण जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला सिरमौर स्थित नाहन के कार्यालय पत्र क्रमांक एच0एफ0डब्ल्यू/एस0टी0/बी0 एण्ड डी0/डिलेड कैसिस/2018-2838 दिनांक 17-09-2019 के अन्तर्गत संस्तुति सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे अगर किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-01-2020 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 06-01-2020 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री धुडू राम पुत्र श्री नन्दू निवासी ग्राम लवागो (कोडगा), तहसील कमरऊ पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

**ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर
(हि0प्र0)**

श्री जगदीश चन्द उर्फ जोगी राम पुत्र श्री सोभा राम, निवासी ग्राम गुद्दी मानपुर, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जगदीश चन्द उर्फ जोगी राम पुत्र श्री सोभा राम, निवासी ग्राम गुद्दी मानपुर, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का प्रार्थना-पत्र जिसके अन्तर्गत प्रार्थी अपने पुत्र पंकज जिसकी जन्म तिथि 02-05-2000 है का इन्द्राज अज्ञानतावश ग्राम पंचायत शरली मानपुर के जन्म अभिलेख में दर्ज करवाने से छूट गया था, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। जिस बारे मूल प्रकरण जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के कार्यालय पत्र क्रमांक एच0एफ0डब्ल्यू/एस0टी0/बी0 एण्ड डी0/डिलेड कैसिस/2018-2860 दिनांक 17-09-2019 के अन्तर्गत संस्तुति सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे अगर किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-01-2020 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 06-01-2020 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री जगदीश चन्द उर्फ जोगी राम पुत्र श्री सोभा राम, निवासी ग्राम गुद्दी मानपुर, तहसील कमरऊ पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर
(हि0प्र0)

श्री कलासी राम पुत्र श्री तेलु राम, निवासी ग्राम कान्ती मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर
(हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कलासी राम पुत्र श्री तेलु राम, निवासी ग्राम कान्ती मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर
(हि0प्र0) का प्रार्थना-पत्र जिसके अन्तर्गत प्रार्थी अपनी पुत्री मानवी जिसकी जन्म तिथि 19-10-2013 है का
इन्द्राज अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कान्ती मशवा के जन्म अभिलेख में दर्ज करवाने से छूट गया था, जिसे प्रार्थी
अब दर्ज करवाना चाहता है। जिस बारे मूल प्रकरण जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा
अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के कार्यालय पत्र क्रमांक एच0एफ0डब्ल्यू/एस0टी0/बी0 एण्ड
डी0/डिलेड कैसिस/2018-2737 दिनांक 09-09-2019 के अन्तर्गत संस्तुति सहित इस कार्यालय में प्राप्त
हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे अगर किसी को कोई
उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-01-2020 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 06-01-2020 से पूर्व किसी
भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है।
निर्धारित अवधि या इसकस पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री कलासी राम पुत्र श्री
तेलु राम, निवासी ग्राम कान्ती मशवा तहसील कमरऊ पर नियमानुसार कार्यवाही गमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

